



भारत का राजपत्र The Gazette of India


असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 64]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2001/माघ 20, 1922

No. 64]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2001/MAGHA 20, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2001

सं. 15/2001-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 80 (अ).—अभिहित प्राधिकारी, सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19, 6404.11, 6405.20 या 6405.90 के अन्तर्गत आने वाले चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित खेल कूद के जूतों, खमड़े के खेल कूद के पैरों के पहनावे (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल समान कहा गया है) के आयात के विषय में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 तारीख 25 जनवरी, 2001 में प्रकाशित अपने निष्कर्षों के अनुसार इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि —

- (क) चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित मूल सामान भारत में उनके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है,
- (ख) घरेलू उद्योग को इसके बाजार श्रेयों में गिरावट के रूप में पाटित मूल सामान के कम अवतरण मूल्य द्वारा कारित मूल्य में गिरावट के मद्दे गिरे हुए विक्रय मूल्यों के कारण वित्तीय हानि द्वारा तात्त्विक क्षति कारित हुई है;
- (ग) चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित मूल सामान के पाटन द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति कारित हुई है और अभिहित प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित मूल सामान के सभी निर्यातों पर, अन्तिम अवधारण होने तक, अन्ततिम रूप से प्रति पाटित शुल्क अधिरोपित करना आवश्यक समझा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, प्रति पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर उक्त सीमा शुल्क टैरिफ, अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19, 6404.11, 6405.20 या 6405.90 के

अन्तर्गत आने वाले चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित, जब किसी निर्यातकर्ता/उत्पादक द्वारा निर्यात किया जाए, और भारत में आयात किया जाए, इससे उपाखण्ड सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के खेल कूद जूतों जो एक गैर चमड़े के पैरों के पहनावे हैं, पर प्रतिपाटित शुल्क उस दर पर अधिरोपित करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित तत्स्थानी रकम और प्रति जोड़ा अमरीकी डालर में ऐसे अवतरण मूल्य के बीच के अन्तर के रूप में संगणित की जाएगी।

सारणी

क्रम सं	खेल कूद जूतों का प्रवर्ग	रकम (अमेरीकी डालर प्रति जोड़ा)
(1)	(2)	(3)
(क)	नाइक, रीबोक या एडीडास के ब्रान्ड नाम वाले	18.44
(ख)	बिना ब्रान्ड के या ऊपर (क) से भिन्न ब्रान्ड नाम वाले	6.277

2 इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटित शुल्क 8 अगस्त, 2001 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी होगा और यह भारतीय करेंसी में संदेय होगा।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए

- (क) “अवतरण मूल्य” से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन यथा अवधारित निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है और जिसके अन्तर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अधीन उद्ग्रहीत शुल्कों के सिवाय सभी सीमा शुल्क सम्मिलित हैं।
- (ख) ऐसी प्रतिपाटित शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू “विनियम दर” वह दर होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाती है और विनियम दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख वह तारीख होगी जिसको उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन “प्रवेशपत्र” प्रस्तुत किया जाता है।

[फा. सं. 354/18/2001-टी.आर.यू.]

प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवसर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2001

No. 15/2001-CUSTOMS

G.S.R. 80 (E).— WHEREAS in the matter of import of Sports Shoes, non-leather sports footwear (hereinafter referred to as ‘the subject goods’), falling under sub-heading Nos. 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19, 6404.11, 6405.20 or 6405.90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the People’s Republic of China, the Designated Authority *vide* its preliminary findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 25th January, 2001, has come to the conclusion that—

- the subject goods, originating in, or exported from, the People’s Republic of China have been exported to India below their normal value;
- the domestic industry has suffered material injury by way of decline in its market share and financial losses due to depressed selling prices on account of price depression caused by low landed prices of the dumped subject goods;
- the injury has been caused to the domestic industry by dumping of the subject goods originating in, or exported from, the People’s Republic of China;

and the Designated Authority has considered it necessary to impose anti-dumping duty, provisionally, pending final determination, on all imports of the subject goods, originating in, or exported from, the People’s Republic of China;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the above findings of the Designated Authority, hereby imposes on Sports Shoes, non-leather sports footwear, of categories specified in column (2) of the Table annexed hereto, falling under sub-heading No. 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19, 6404.11, 6405.20 or 6405.90 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from, the People's Republic of China, when exported by any exporter/producer, and imported into India, an anti-dumping duty at the rate which shall be calculated as the difference between the corresponding amount mentioned in column (3) of the said Table and the landed value of such imported subject goods in US \$ per pair.

Table

S.No.	Category of Sports Shoes	Amount (US \$ per pair)
(1)	(2)	(3)
1.	(a) Bearing brand name of Nike, Reebok or Adidas	18.44
	(b) Unbranded or bearing brand names other than (a) above	6.277

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective upto and inclusive of the 8th day of August, 2001, and shall be payable in Indian currency.

Explanation - For the purposes of this notification,-

- (a) "landed value" means the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Customs Tariff Act;
- (b) "rate of exchange" applicable for the purposes of calculation of anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers under sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the said Customs Act, and the relevant date for the determination of the "rate of exchange" shall be the date of presentation of the "bill of entry" under section 46 of the said Customs Act.

[F No 354/18/2001-TRU]

PRASHANT KUMAR SINHA, Under Secy

